

## ॥ काव्य खंड ॥



हृदय सिंधु मति सीप समाना।  
स्वाति सारदा कहहिं सुजाना।  
जो बरषइ बर बारि विचारू।  
होहि कवित मुक्तामनि चारू॥


- तुलसीदास

# 1857

## जंग-ए-आजादी के शहीदों को सलाम

### सन् 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत

हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा  
पाक वतन है कौम का जन्त से भी प्यारा  
ये हैं हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा  
इसकी रुहानियत से रोशन है जग सारा  
कितनी कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा  
करती है जरखेज़ जिसे गंगो-जमुन की धारा  
ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा  
नीचे साहिल पर बजता, सागर का नक्कारा  
इसकी खाने उगल रहीं सोना हीरा पारा  
इसकी शान-शौकत का दुनिया में जयकारा  
आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा  
लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा  
आज शहीदों ने हैं तुमको अहले वतन ललकारा  
तोड़ो गुलामी की ज़ंजीरें बरसाओ अंगारा  
हिंदू मुसलमां सिख हमारा भाई भाई प्यारा  
यह है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा॥





1055CH01

**सूरदास** का जन्म सन् 1478 में माना जाता है। एक मान्यता **सूरदास** के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म-स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृद्धावन के बीच गऊघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन-कीर्तन करते थे। सन् 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ।

उनके तीन ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर 'वात्सल्य' और 'शृंगार' के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरवगाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की।

उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है।



1

## सूरदास

## क्षितिज


यहाँ सूरसागर के भ्रमरगीत से चार पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौंगा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमरगीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाज़िब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बँधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएँ मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म (प्रजा का हित) याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है।



## ❖ पद ❖

( १ )

ऊधौ, तुम हौ अति बड़भागी।  
अपरस रहत सनेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी।  
पुरझनि पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी।  
ज्यौं जल माहँ तेल की गागरि, बूँद न ताकौं लागी।  
प्रीति-नदी मैं पाडँ न बोस्थौ, दृष्टि न रूप परागी।  
‘सूरदास’ अबला हम भोरी, गुर चाँटी ज्यौं पागी॥



( 2 )

मन की मन ही माँझ रही।  
कहिए जाइ कौन पै ऊधौ, नाहीं परत कही।  
अवधि अधार आस आवन की, तन मन बिथा सही।  
अब इन जोग सँदेसनि सुनि-सुनि, बिरहिनि बिरह दही।  
चाहति हुतीं गुहारि जितहिं तैं, उत तैं धार बही।  
'सूरदास' अब धीर धरहिं क्याँ, मरजादा न लही॥

( 3 )

हमारैं हरि हारिल की लकरी।  
मन क्रम बचन नंद-नंदन उर, यह दृढ़ करि पकरी।  
जागत सोवत स्वप्न दिवस-निसि, कान्ह-कान्ह जक री।  
सुनत जोग लागत है ऐसौ, ज्यौं करुई ककरी।  
सु तौं व्याधि हमकौं लै आए, देखी सुनी न करी।  
यह तौं 'सूर' तिनहिं लै सौंपौं, जिनके मन चकरी॥

( 4 )

हरि हैं राजनीति पदि आए।  
समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए।  
इक अति चतुर हुते पहिलैं ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।  
बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग-सँदेस पठाए।  
ऊधौ भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए।  
अब अपनै मन फेर पाइहैं, चलत जु हुते चुराए।  
ते क्यौं अनीति करैं आपुन, जे और अनीति छुड़ाए।  
राज धरम तौं यहै 'सूर', जो प्रजा न जाहिं सताए॥



1. गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है?
2. उद्धव के व्यवहार की तुलना किस-किस से की गई है?
3. गोपियों ने किन-किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं?
4. उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहगिन में घी का काम कैसे किया?
5. 'मरजादा न लही' के माध्यम से कौन-सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है?
6. कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है?
7. गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है?
8. प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग-साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें।
9. गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए?
10. गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन-से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं?
11. गोपियों ने अपने वाक्‌चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्‌चातुर्य की विशेषताएँ लिखिए?
12. संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमरगीत की मुख्य विशेषताएँ बताइए?

## रचना और अभिव्यक्ति

13. गोपियों ने उद्धव के सामने तरह-तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए।
14. उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे; गोपियों के पास ऐसी कौन-सी शक्ति थी जो उनके वाक्‌चातुर्य में मुखरित हो उठी?
15. गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नज़र आता है, स्पष्ट कीजिए।

## पाठेतर सक्रियता

- प्रस्तुत पदों की सबसे बड़ी विशेषता है गोपियों की 'वाग्विद्ग्धता'। आपने ऐसे और चरित्रों के बारे में पढ़ा या सुना होगा जिन्होंने अपने वाक्‌चातुर्य के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई; जैसे-बीरबल, तेनालीराम, गोपालभाँड, मुल्ला नसीरुद्दीन आदि। अपने किसी मनपसंद चरित्र के कुछ किस्से संकलित कर एक अलबम तैयार करें।
- सूर रचित अपने प्रिय पदों को लय व ताल के साथ गाएँ।

## शब्द-संपदा

बड़भागी	- भाग्यवान
अपरस	- अलिप्त, नीरस, अछूता
तगा	- धागा, बंधन
पुरइनि पात	- कमल का पत्ता
दागी	- दाग, धब्बा
माहँ	- में
प्रीति-नदी	- प्रेम की नदी
पाडँ	- पैर
बोस्चौ	- डुबोया
परागी	- मुग्ध होना
गुर चाँटी ज्यौं पागी	- जिस प्रकार चाँटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं
अधार	- आधार
आवन	- आगमन
बिथा	- व्यथा
बिरहिनि	- वियोग में जीने वाली
बिरह दही	- विरह की आग में जल रही हैं
हुतीं	- थीं
गुहारि	- रक्षा के लिए पुकारना
जितहिं तैं	- जहाँ से
उत	- उधर, वहाँ
धार	- योग की प्रबल धारा
धीर	- धैर्य
मरजादा	- मर्यादा, प्रतिष्ठा
न लही	- नहीं रही, नहीं खी
हारिल	- हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है
नंद-नंदन उर...पकरी	- नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है
जक री	- रटती रहती हैं
सु	- वह
ब्याधि	- रोग, पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु
करी	- भोगा



तिनहिं

- उनको
- जिनका मन स्थिर नहीं रहता
- भौंरा, उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन
- थे
- भेजा
- पहले के
- दूसरों के कल्पाण के लिए
- घूमते-फिरते थे
- फिर से
- पा लेंगी
- अन्याय

मन चकरी

मधुकर

हुते

पठाए

आगे के

पर हित

डोलत धाए

फेर

पाइहें

अनीति

### यह भी जानें

**हारिल :** यह पीली टाँगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है जिसे हरियल, हारीत (संस्कृत), कॉमन ग्रीन पिङ्जन (अंग्रेजी) भी कहा जाता है। यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ‘हारिल की लकड़ी’ लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित है।

